

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023—श्रावण 20, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2023

क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. (2017), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 जुलाई 2023

क्रमांक/2725/एफ-02/11/2013/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7413/7651/14-1, भोपाल, दिनांक 16-10-1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा तत्कालीन जिला-रायपुर, वर्तमान जिला-बलौदा बाजार भाटापारा के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के निर्मांकित स्थान, जिसमें समस्त सरंचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, को राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से, उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम-कोडापार, पटवारी हल्का नं. 14, राजस्व निरीक्षक मण्डल खोखली, तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में स्थित खसरा क्रमांक 42 (सड़क के दक्षिणी भाग), खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 46, 47 (सड़क के दक्षिण भाग), खसरा क्रमांक 62 (सड़क के दक्षिण भाग) एवं खसरा क्रमांक 63 (सड़क के दक्षिण भाग), रकबा लगभग 14.180 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र, जिसके :—

01. **उत्तर दिशा में — ग्राम कोडापार,—**
 - (1) पक्की सड़क
 - (2) रविन्द्र पिता दुखुवा—खसरा क्रमांक 69/2
 - (3) आशीन वगैरह—खसरा क्रमांक 60
 - (4) निहाली राम ध्रुव—खसरा क्रमांक 55
02. **दक्षिण दिशा में—ग्राम सेमरिया,—**
श्रीमती दुर्गेश नंदनी—खसरा क्रमांक 04
03. **पूर्व दिशा में—ग्राम बीजाभाठ,—**
 - (1) फूलसिंग पिता कोलवा, खसरा क्रमांक 65
 - (2) सुनील जसवानी—खसरा क्रमांक 16/1
04. **पश्चिम दिशा में—ग्राम मुढीपार एवं खोखली,—**
राज्य शासन—कृषि महाविद्यालय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 जुलाई 2023

क्रमांक/2725/एफ-02/11/2013/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2725/रायपुर दिनांक 06-07-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, the 6th July 2023

No./2725/F-02/11/2013/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the state Government, hereby, declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following places including any structure, enclosures

open place or locality shall be sub-market yard in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Bhatapara erstwhile District Raipur at present District-Bhatapara-Balodabazar establishes vide this Department Notification No. 7413/7651/14-1, Bhopal, dated 16-10-1964, namely :—

PLACE

An area of about 14.180 hectares land of Khasra No. 42 (Southern part of the road), Khasra No. 43, 44, 45, 46, 47 (Southern part of the road), Khasra No. 62 (Southern part of the road) and Khasra No. 63 (South part of the road) at Village-Kodapar, Patwari Halka No. 14, Revenue Inspector Circle Khokhli in Bhatapara, Tahsil of Balodabazar-Bhatapara District, as under ;—

- 01. In North side—Village Kodapar,—**
 - (1) Pakka road
 - (2) Ravindra S/o Dukhuva-Khasra No. 69/2
 - (3) Asheen, etc.- Khasra No. 60
 - (4) Nihali Ram Dhruv- Khasra No. 55
- 02. In South side— Village Semaria,—**
Smt. Durgesh Nandani- Khasra No. 04
- 03. In East side— Village Bijabhath,—**
 - (1) Phoolsing S/o Kolwa - Khasra No. 65
 - (2) Sunil Jaswani - Khasra No. 16/1
- 04. In West side — Village Mudhipar and Khokhli,—**
State Government - Agriculture College

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 जुलाई 2023

क्रमांक/2772/एफ-14-12/से.अ./2023/14-2.—छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के गठन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 537/बी/14/12/2002/14-2 दिनांक 14-06-2002 एवं छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के गठन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 4556/बी-4-36/2007/14-2 दिनांक 22-11-2007 को विलय करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था (Chhattisgarh State Seed and Organic Certification Agency) घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023

क्रमांक एफ 1-01/2023/10-भा.व.से.—विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 1-73/2001/10-भा.व.से., दिनांक 24-02-2022 द्वारा क्रमशः श्री आशीष कुमार भट्ट, भा.व.से. (1988) तथा श्री जनक राम नायक, भा.व.से. (2001) को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30-06-2023 को शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त किया गया है.

2. अतः श्री आशीष कुमार भट्ट, भा.व.से. (1988) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के दिनांक 30-06-2023 को सेवा निवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर

श्री व्ही. श्रीनिवास राव, भा.व.से. (1990) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है।

3. श्री जनक राम नायक, भा.व.से. (2001) मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के दिनांक 30-06-2023 को सेवा निवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर श्री दिलराज प्रभाकर, भा.व.से. (2008) वन संरक्षक (विकास/योजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार तथा श्री के. मैचियो, भा.व.से. (2006) वन संरक्षक (सत./शिका.) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2023

क्रमांक 1899/एफ 26/01/2022/13/2.-राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति, 2022 जारी की गई है, जो सितम्बर 2022 से राज्य में प्रभावशील है।

राज्य शासन एतद्वारा उक्त नीति में संशोधन करते हुए यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति (प्रथम संशोधन), 2023 जारी करती है :-

1. नोडल एजेंसी

छत्तीसगढ़ राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वे, अनुसंधान उपरांत परियोजना स्थल का चयन, चिन्हांकन एवं विकास आदि के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर (CSPGCL) राज्य की अधिकृत नोडल एजेंसी होगी।

2. परियोजना स्थल के चिन्हांकन की प्रक्रिया:-

(2.1) राज्य की नोडल एजेंसी (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड) द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से सर्वे एवं अनुसंधान उपरांत चिन्हित एवं चयनित पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी। ऐसी परियोजनाएँ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित परियोजनाएँ कहलायेगी।

(2.2) "अन्य संस्थानों/विकासकर्ताओं द्वारा भी स्वयं के स्त्रोतों से ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का स्व-चिन्हांकन कर परियोजना की स्थापना की जा सकती है, बशर्ते संस्थानों द्वारा चयनित स्थल नदी के बहाव क्षेत्र से परे हो तथा परियोजना में प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग न हो रहा हो। ऐसी परियोजनाएँ अन्य संस्थानों द्वारा स्व-चिन्हित परियोजनाएँ कहलायेंगी।"

3. पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का विकास :- पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का विकास निम्न माध्यमों से की जा सकेगी:-

(1) राज्य शासन की अनुमति से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) द्वारा स्वयं निवेश द्वारा।

- (2) राज्य शासन की अनुमति से नोडल एजेंसी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ संयुक्त उपक्रम का गठन के माध्यम से.
- (3) खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना विकासकर्ता का चयन कर परियोजना का आबंटन के माध्यम से.
- (4) “टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (TBCB) द्वारा परियोजना विकासकर्ता का चयन कर परियोजना का आबंटन के माध्यम से.”
- (5) “अन्य संस्थानों/विकासकर्ताओं द्वारा भी कंडिका 2.2 के अंतर्गत स्व-चिन्हांकित स्वयं के स्रोतों से ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना का विकास.”

4. पात्रता, शुल्क तथा आबंटन की प्रक्रिया :-

4.1 पात्रता

- (1) किसी भारतीय नागरिक, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत सहकारी संस्था एवं कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को राज्य में पंप स्टोरेज आधारित परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता रहेगी. आवेदक को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए.
- (2) प्रस्तावित परियोजना के आबंटन हेतु आवेदक के नेटवर्थ, टर्नओवर, अनुभव आदि अर्हताएं नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित की जा सकेगी.

4.2 शुल्क-

- (1) **पम्प स्टोरेज परियोजना हेतु हरित ऊर्जा विकास शुल्क:-**परियोजना विकासकर्ता को परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से हरित ऊर्जा विकास शुल्क का भुगतान राज्य शासन को करेंगे, प्रत्येक 5 साल के बाद शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
- (2) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हांकित परियोजना हेतु साध्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति आबंटिती/परियोजना विकासकर्ता द्वारा नोडल एजेंसी को किया जाना होगा.
- (3) उपरोक्त शुल्क आबंटन प्रक्रिया के अंतर्गत टैरिफ पॉलिसी के मापदण्डों के अनुरूप देय शुल्क/चार्ज के अतिरिक्त होगी. आवेदक द्वारा राज्य शासन को भुगतान किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा.
- (4) परियोजना के विकास हेतु नोडल एजेंसी द्वारा विकासकर्ता से परफार्मेंस गारंटी के रूप में समुचित राशि जमा कराई जावेगी. परियोजना के आबंटन की प्रक्रिया अंतर्गत नोडल एजेंसी एवं परियोजना विकासकर्ता के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जायेगा तथा परियोजना के निर्माण एवं उत्पादन हेतु माईल स्टोन चरणबद्ध समय-सीमा निर्धारित कर समीक्षा की जा सकेगी. परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर उन्हें आबंटित परियोजना को निरस्त करते हुए परफार्मेंस गारंटी के रूप में जमा की गई राशि राजसात की जा सकेगी.

4.3 आबंटन की प्रक्रिया:-

- (अ) पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना का विकास खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी परियोजना विकासकर्ता का चयन कर किये जाने हेतु परियोजना के आबंटन के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया रहेगी:-
 - (1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित परियोजना हेतु स्वयं के स्रोतों से परियोजना का साध्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जावेगा. उक्त परियोजना का विकास नोडल एजेंसी द्वारा निविदा आधारित पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकेगी.

- (2) निविदा आधारित आवंटन प्रक्रिया अंतर्गत नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने वाले पात्र आवेदकों का चयन निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर परियोजना के आवंटन हेतु नोडल एजेंसी राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करेगी, जिस पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा परियोजना का आवंटन किया जावेगा. आवंटन हेतु राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.
 - (3) पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के आवंटन हेतु विद्युत मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत दिनांक 28 जनवरी 2016 को जारी टैरिफ नीति के "बिन्दु 5 टैरिफ के प्रति सामान्य दृष्टिकोण" की कंडिका 5.1 में उल्लेखित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी खुली बोली प्रक्रिया के अनुसार तथा कंडिका 5.5 में उल्लेखित आवंटन की पारदर्शी द्विस्तरीय प्रक्रिया अनुसार होगा.
- (ब) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (नोडल एजेंसी) द्वारा चिन्हित परियोजना हेतु स्वयं के स्रोतों से परियोजना का साध्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जावेगा. उक्त परियोजना का विकास नोडल एजेंसी द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (TBCB) के माध्यम से परियोजना विकासकर्ता का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकेगा:-
- (i) परियोजना विकासकर्ता द्वारा पम्पिंग (इनपुट) पॉवर की व्यवस्था किए जाने की स्थिति में समग्र टैरिफ (पम्पिंग पावर के लागत सहित) के आधार पर या;
 - (ii) परियोजना से उत्पादित विद्युत के क्रयकर्ता द्वारा परियोजना के लिए पम्पिंग पॉवर की व्यवस्था किए जाने पर, प्रति मेगावाट-घंटे (Per Megawatt Hour) के आधार पर ऊर्जा भंडारण का टैरिफ.

उक्त टैरिफ को समुचित आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत अंगीकार करेगा.

- (स) अन्य संस्थानों/विकासकर्ताओं द्वारा स्व-चिन्हित ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना का विकास निम्नानुसार किया जाएगा:-

अन्य संस्थानों/विकासकर्ताओं द्वारा स्व-चिन्हित ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु संबंधित परियोजना विकासकर्ता से राज्य शासन MOU कर सकेगा. परियोजना निर्माण कार्य करने के पूर्व परियोजना विकासकर्ता राज्य एवं केंद्र सरकार से सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करेगा.

4.4 आवंटन की सीमा:-

- (1) आवेदक कम्पनी को एक समय में अधिकतम दो पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा.
- (2) अधिकतम दो पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की यह सीमा ऐसी कंपनियों पर भी लागू होगी जो कंपनी एक्ट 1956 (वर्ष 1956 का क्रमांक एक) की संगत धाराओं में एक ही प्रबंधन के रूप में परिभाषित है.
- (3) किन्हीं दो कम्पनियों के समान निदेशक होने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा.

5. **पंप स्टोरेज आधारित परियोजना से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत व्हीलिंग अथवा विद्युत प्रणाली का विकास:-**
 - (5.1) पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण लाइन की आवश्यकता होने पर उक्त लाइन की स्थापना हेतु वैधानिक अनुमतियों एवं विद्युत प्रणाली के विकास का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा. इस हेतु संयंत्र के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीचयार्ड से निकटतम राज्य की विद्युत पारेषण प्रणाली अथवा राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली अथवा अन्तर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली तक आवश्यक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमतियों प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर रहेगा.
 - (5.2) निवेशक को विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लायसेंसी की अन्य विद्यमान विद्युत प्रणाली का उपयोग कर विद्युत के व्हीलिंग की अनुमति होगी. लेकिन परियोजना से उत्पादित विद्युत हेतु आवेदक को नियमानुसार विद्युत व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा.
 - (5.3) दोहरे कराधान से बचाव के सिद्धांत के अनुसार, पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना में विद्युत ऊर्जा भंडारण हेतु किए गए विद्युत क्रय (पम्पिंग पॉवर) के लिए विद्युत शुल्क (ईडी), ऊर्जा विकास उपकर (सेस) एवं क्रॉस सब्सिडी अधिभार के भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी.
6. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त जल पर रायल्टी :-** पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त जल पर जल संसाधन विभाग द्वारा लागू नियमानुसार रायल्टी अधिरोपित रहेगी.
7. राज्य में प्रस्तावित पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य में प्रभावशील औद्योगिक नीति तथा भारत सरकार की नीति में प्रावधानानुसार रियायतें/सुविधाएँ की पात्रता रहेगी.
8. **पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि आवंटन:-**
 - (8.1) यदि परियोजना स्थल पर उपलब्ध शासकीय भूमि की आवश्यकता है तो उसके आवंटन हेतु शासन के नियमानुसार भू-आवंटन की कार्यवाही की जायेगी. लेकिन इस हेतु परियोजना विकासकर्ता को एसआईपीबी/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा.
 - (8.2) यदि परियोजना हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है तो शासन के प्रभावशील नियमों के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी. लेकिन इस हेतु परियोजना विकासकर्ता को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा.
 - (8.3) परियोजना से प्रभावित परिवारों को राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा. परियोजना प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की कार्ययोजना स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित करना होगा ताकि प्रभावित परिवारों को आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें.
9. **पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के लिए वैधानिक व आवश्यक अनुमतियों प्राप्त करना:-**
 - (9.1) जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियों प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर है. अतः परियोजना विकासकर्ता को उन्हें आबंटित परियोजना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियों प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी.
 - (9.2) पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत आयोग, भारत सरकार (Central Electricity Authority) एवं अन्य सम्बन्धित मंत्रालय/विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता का होगा. अतः परियोजना विकासकर्ता को उन्हें आबंटित परियोजना हेतु उक्त आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी.

10. पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा घोषित सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी.
11. **पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु समय-सीमा:-**
- (11.1) परियोजना विकासकर्ता को परियोजना आवंटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना के विकास हेतु वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय लेखाबंदी सुनिश्चित कर परियोजना का निर्माण प्रारंभ करना होगा. निर्माण प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा परियोजना स्थल का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.
- (11.2) जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य उक्त अवधि के भीतर, पर्यावरण स्वीकृति तथा वन स्वीकृति में विलंब होने के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया हो, उन परियोजनाओं को एक (1) वर्ष की छूट दी जा सकेगी, बशर्ते कि परियोजना विकासकर्ता द्वारा तय सीमा के भीतर उक्त आशय का आवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो.
- (11.3) निर्माण प्रारंभ करने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि में परियोजना की पहली इकाई से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करना होगा.
- (11.4) परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित उक्त समय सीमा का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा परियोजना कार्यों में हुए प्रगति के अनुसार परियोजना आवंटन आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा.
12. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय :-** विद्युत मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 का अनुपालन करते हुये दिनांक 28 जनवरी 2016 को जारी टैरिफ नीति के अनुसार पम्प स्टोरेज परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय टैरिफ नीति के "बिन्दु 5 टैरिफ के प्रति सामान्य दृष्टिकोण" की कंडिका 5.1 में उल्लेखित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी खुली बोली प्रक्रिया के अनुसार होगा. पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना क्षमता के 80 प्रतिशत तक विद्युत क्रय करने का प्रथम अधिकार राज्य की विद्युत वितरण कंपनी को होगा जो कि इकाई के लिए बंधनकारी होगा. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय न करने पर निजी विद्युत उत्पादक स्वनिर्णय से अन्य को विद्युत का विक्रय कर सकेगा.
- राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय की जा रही बिजली की मात्रा एवं दर का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अंतर्गत किया जाएगा.
13. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा:-** राज्य में प्रस्तावित पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रगति की नियमित समीक्षा ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी.
14. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना आवंटन आदेश का हस्तांतरण:-** सामान्यतः परियोजना का आवंटन अहस्तांतरणीय है. अतः इन परियोजनाओं का विकास स्वयं आवेदक द्वारा किया जाना अनिवार्य है. तदनुसार परियोजना के आवंटन की तिथि से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि उपरांत दो वर्ष की अवधि तक आवेदक पर निम्नानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे:-
- (14.1) यदि परियोजना का आवंटन किसी भारतीय नागरिक को किया गया है तो ऐसी अवस्था में परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक किसी अन्य को परियोजना का अंतरण राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.
- (14.2) यदि परियोजना का आवंटन इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अथवा पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को किया गया है तो ऐसी अवस्था में उक्त आवंटित परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक आवंटन के समय गठित शासी निकाय, प्राधिकारी अथवा संचालक मण्डल में कोई भी परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

- (14.3) परियोजना विकासकर्ता को परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक होने पर स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीव्ही) के गठन की अनुमति होगी लेकिन उक्त एसपीव्ही को आवंटित परियोजना के विकास के अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. इस तरह गठित एसपीव्ही में आवेदक की अंशपूँजी कम से कम 51 प्रतिशत होनी आवश्यक है.
- (14.4) परियोजना की स्थापना हेतु जारी आवंटन आदेश की शर्तों के अधीन परियोजना का निर्माण एवं संचालन किया जा सकेगा.
15. राज्य में पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्षों तक प्रभावशील रहेंगे.
16. इस अधिसूचना में ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा.
17. उक्त अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधान या बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्रमांक/03/वाचक/भू-अर्जन/202010330200001/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	भरतपुर	जनकपुर प.ह.नं.-09	0.89	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़.	जनकपुर बायपास पहुँच मार्ग हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सरगुजा, दिनांक 17 मई 2023

रा.प्र.क्रमांक/4/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	पेंट प.ह.नं.-13 शासकीय भूमि	2.312 0.080	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	पेट पीडिया जलाशय योजना (मुख्य नहर एवं उपनहर)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 24 जुलाई 2023

क्रमांक/9985/भू-अर्जन/202202050400001/अ-82/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	अजगरबहार	कोड़ियाघाट प.ह.नं. 01	1.393	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	झोरा-कोड़ियाघाट मार्ग में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 22 जून 2023

क्रमांक/8830/भू-अर्जन/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-पुटुवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.449 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131	0.336
132	0.113
योग	2 0.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमान-पुटुवा-बनखेता मार्ग में अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 जुलाई 2023

क्रमांक/9267/भू-अर्जन/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पोंड़ी-उपरोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-मेरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104/1	0.390
योग	1 0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मेरई-करांडांड मार्ग में तान नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्रमांक/6410/भू-अर्जन/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-बलरामपुर
(ग) नगर/ग्राम-सुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	480/3	0.06
522	0.03	योग	10
521	0.03		0.34
519	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरा-अमडण्डा मार्ग पर चनान नदी पर निर्माण हेतु.	
518	0.03		
462	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलरामपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
515	0.01		
461	0.02		
465/1	0.04	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
465/2	0.08	रिमिजियुस एक्का, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्रमांक/162/अ.भू.अ./2023.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक/एफ 11-38/2022/सात-4, दिनांक 30 मई 2023 रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक/238-अ/दिनांक 30 मई 2023 में जारी अधिसूचना के अनुसार गठित नवीन तहसील घुमका व अपवर्जित राजनांदगांव तहसील हेतु मैं डोमन सिंह, कलेक्टर राजनांदगांव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिले में गठित नवीन तहसील घुमका व अपवर्जित तहसील राजनांदगांव में संलग्न सूची अनुरूप पटवारी हल्का व राजस्व मंडल का पुर्नगठन करता हूँ.

तहसील राजनांदगांव (अपवर्जित) व नवीन गठित तहसील घुमका में पुर्नगठित पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक मंडल की सूची संलग्न है.

डोमन सिंह,
कलेक्टर.

प्रारूप

जिला - राजनांदगांव

तहसील घुमका पुर्नगठन पश्चात तहसील राजनांदगांव में प्रस्तावित नवीन हल्के की जानकारी

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमांकित प.ह.नं.			प.ह.नं. में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत (राजस्व ग्राम/वन ग्राम/डुबान
			वर्तमान प.ह.नं.	प्रस्तावित हल्का नंबर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	खैरझिटी	17	1	जोरातराई	जोरातराई	जोरातराई	941.002	
2						मनगटा	मनगटा	769.540	
3						बघेरा	बघेरा	989.188	
4			18	2	बघेरा	मुढीपार	मुढीपार	332.956	
5						झूराडबरी		390.675	
6						भांठागांव,	भांठागांव,	462.035	
7			19	3	भांठागांव,	तुमडीलेवा	तुमडीलेवा	358.663	
8						परेवाडीह		198.736	
9			20	4	खैरझिटी	खैरझिटी	खैरझिटी	749.941	
10						बोईरडीह	बोईरडीह	480.861	
11			21	5	पदुमतरा	पदुमतरा	पदुमतरा	627.710	
12						बासुला	बासुला	418.941	
13						खपरीखुर्द	खपरीखुर्द	163.794	
14			22	6	खपरीखुर्द	चवेली		310.851	
15						डुमरडीहकला,	डुमरडीहकला	542.096	
16						सोमरादेहान		274.257	
17						डोमहाटोला	डोमहाटोला	267.543	
18			23	7	डोमहाटोला	बुंदलीकला		331.820	
19						धौराभांठा,	धौराभांठा,	269.129	
20						बुंदेलीखुर्द		221.166	
21						तिलई	तिलई	320.206	
22			24	8	तिलई	डंगनिया		226.862	
23						जोरातराई	जोरातराई	436.408	
24						काकेतरा	काकेतरा	728.121	
25			25	9	काकेतरा	सिंगपुर	सिंगपुर	260.682	
26						मोहबा		239.423	
27						रैगाकठेरा	रैगाकठेरा	804.128	
28			26	10	रैगाकठेरा	डारागांव		139.829	
29						खपरीकला	खपरीकला	415.848	
30						मकरनपुर		195.041	
रा.नि.म. योग:-		1		10		30	20	12867.452	
31	राजनांदगांव	सुकुलदैहान				सुकुलदैहान	सुकुलदैहान	475.437	
32			27	11	सुकुलदैहान	बम्हनी	बम्हनी	267.496	
33						धनगांव	धनगांव	486.062	
34			28	12	इंदामरा	इंदामरा	इंदामरा	535.766	
35						भानपुरी	भानपुरी	469.450	
36						पनेका	पनेका	380.282	
37			29	13	पनेका	बांकल	बांकल	296.043	
38						फरहद	फरहद	289.050	
39						बरगा	बरगा	400.156	
40						रीवागहन		266.356	
41						लिटिया	लिटिया	544.915	
42						बागतराई	बागतराई	301.113	
43			30	14	लिटिया	गातापार		320.377	
44						धरमापुर	धरमापुर	270.650	
45						बरगाही		298.107	
46			31	15	बोरी	बोरी	बोरी	427.609	
47						खिलापहरी	खिलापहरी	514.580	
48			32	16	गडुल	गडुल	गडुल	619.956	
49						भेडीकला	भेडीकला	536.728	
रा.नि.म. योग:-		1		6		19	16	7700.133	
50	राजनांदगांव	मोतीपुर	33	17	ढाबा	ढाबा		475.637	
51			34	18	मोतीपुर	मोतीपुर	नगरीय क्षेत्र	157.630	
						बजरंगपुर नवागांव	बजरंगपुर नवागांव	601.230	
			35	19					
52									

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः क्रमांकित प.ह.नं.			प.ह.नं. में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत (राजस्व ग्राम/वन ग्राम/डुबान			
			वर्तमान प.ह.नं.	प्रस्तावित हल्का नंबर	मुख्यालय का नाम							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
रा.नि.म. योग:-		1		3		3		1234.497				
53	राजनांदगांव	कौरिनमांठा	36	20	पेन्डी	पेन्डी	नगरीय क्षेत्र	609.171				
54			37	21	रेवाडीह	रेवाडीह		491.254				
55			38	22	कौरिनमांठा	कौरिनमांठा		382.083				
रा.नि.म. योग:-		1		3		3		1482.508				
56	राजनांदगांव	राजनांदगांव	39	23	चिखली	चिखली	नगरीय क्षेत्र	375.108				
57			40	24	राजनांदगांव	राजनांदगांव		423.459				
58			41	25	नंदई	नंदई		441.599				
रा.नि.म. योग:-		1		3		3		1240.166				
59	राजनांदगांव	लखोली	42	26	लखोली	लखोली	नगरीय क्षेत्र	767.274				
60			43	27	कन्हारपुरी	कन्हारपुरी		672.998				
61			44	28	मोहड़	मोहड़		695.855				
रा.नि.म. योग:-		1		3		3		2136.127				
62	राजनांदगांव	सिंगदई	45	29	सिंगदई	सिंगदई	नगरीय क्षेत्र	289.844				
63			46	30	मोहारा	मोहारा		247.070				
64			47	31	हरदी	हरदी		371.690				
रा.नि.म. योग:-		1		3		3		908.604				
65	राजनांदगांव	सुरगी	48	32	सिघौला	सिघौला	सिघौला	459.784				
66						भवरमंरा	भवरमंरा	900.739				
67						49	33	रानीतराई	रानीतराई	रानीतराई	198.031	
68									आलीखुंटा		314.067	
69			गहाराजपुर	महाराजपुर	208.821							
70			मोथीपारकला		272.478							
71			50	34	मोथीपारखुर्द	मोथीपारखुर्द	मोथीपारखुर्द	252.061				
72						धामनसरा	धामनसरा	315.573				
73						झोडिया	झोडिया	151.428				
74						भोडिया		159.696				
75			51	35	मुडपार	मुडपार	मुडपार	447.306				
76						भलपुरी		356.085				
77						उसरीबोड	उसरीबोड	289.624				
78						सुरगी	सुरगी	659.202				
79			52	36	सुरगी	कुम्हालोरी	कुम्हालोरी	159.992				
80						बेलटिकरी		245.278				
81						कोटरामांठा	कोटरामांठा	374.195				
82						आरला	आरला	253.643				
83			53	37	कोटरामांठा	बुधीभरदा		238.334				
रा.नि.म. योग:-						1		19	13	6256.337		
84	राजनांदगांव	ठाकुरटोला				54	38	मोखला	मोखला	मोखला	484.702	
85									पारीखुर्द	पारीखुर्द	273.741	
86			कुसमी		117.703							
87			55	39	खैरा	खैरा	खैरा	286.302				
88						रवेली		329.637				
89						जंगलेशर	जंगलेशर	794.550				
90			56	40	भरगांव	भरगांव	भरगांव	818.519				
91						खुटेरी	खुटेरी	663.904				
92						तोशनकट्टा	तोशनकट्टा	457.347				
93			57	41	तोशनकट्टा	मनकी		243.324				
94						ठाकुरटोला	ठाकुरटोला	580.969				
95						ठेकवा	ठेकवा	260.197				
96			58	42	सुंदरा	सुंदरा	सुंदरा	437.482				
97						पारीकला	पारीकला	422.838				
98						ककरेल	ककरेल	357.092				
99			59	43	ककरेल	फरहद	ठेकवा	221.587				
100						मौहाभांठा	ककरेल	205.733				
101						अ.भाठागांव		480.367				
102						परमातकसा	अ.भाठागांव	349.355				
रा.नि.म. योग:-			1			19	15	7785.349				
103						नवागांव	नवागांव	484.775				

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः क्रमांकित प.ह.नं.			प.ह.नं. में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत (राजस्व ग्राम/वन ग्राम/डुबान	
			वर्तमान प.ह.नं.	प्रस्तावित हल्का नंबर	मुख्यालय का नाम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
104	राजनांदगांव	टेडेसरा	60	44	नवागांव	इंदावानी	इंदावानी	506.851		
105						वैगाटोला	वैगाटोला	299.587		
106						फूलझर	फूलझर	381.022		
107				61	45	फूलझर	मगरलोटा	मगरलोटा	293.598	
108						विरेश्वर		335.410		
109				62	46	अंजोरा	अंजोरा	अंजोरा	567.194	
110						कोपेडीह	कोपेडीह	370.841		
111				63	47	टेडेसरा	टेडेसरा	टेडेसरा	666.478	
112						देवादा	देवादा	460.219		
113				64	48	सोमनी	सोमनी	सोमनी	448.953	
114						ईरा	ईरा	432.260		
115				65	49	सांकरा	सांकरा	सांकरा	928.911	
116							धीरी	धीरी	323.950	
रा.नि.म. योग:-			1			14	13	6500.049		
महायोग :-			10	49		116	77	48111.222		

प्रारूप
जिला - राजनांदगांव
नवीन गठित तहसील घुमका जिला- राजनांदगांव छ.ग.
प्रस्तावित नवीन हल्का की जानकारी

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः क्रमांकित म.ह.नं.			प.ह.नं. में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत (राजस्व ग्राम/वन ग्राम/डुबान ग्राम/विरान ग्राम)
			वर्तमान प.ह. नं.	प्रस्तावित हल्का नंबर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	घुमका	घुमका	1	1	मासूल	मासूल	मासूल	604.067	
2						मानपुर		218.064	
3						खपरीचमार	जुरलाखुर्द	280.505	
4						जुरलाखुर्द		311.516	
5			2	2	भैंसातरा	भैंसातरा	भैंसातरा	644.476	
6						जोगीदल्ली		338.070	
7						बहेराभांठा	बहेराभांठा	536.036	
8						मालाडबरी		380.051	
9			3	3	सहसपुरदल्ली	सहसपुरदल्ली	सहसपुरदल्ली	356.179	
10						भरकाटोला		361.855	
11						कलकसा	अमलीडीह	284.822	
12						अमलीडीह		206.637	
13						कौहाकुड़ा		136.245	
14						ढाबा		215.152	
15			4	4	नागलदाह	नागलदाह	नागलदाह	484.378	
16						कलेवा	कलेवा	479.679	
17						कुवारझोरकी		197.654	
18						बोटेपार	बोटेपार	735.552	
19			5	5	खैरा	खैरा	खैरा	330.128	
20						भटगांव		331.532	
21						टूरीपार	बांटगांव	253.190	
22						बांटगांव		334.188	
23			6	6	घुमका	घुमका	घुमका	1323.250	
24			7	7	पटेवा	खजरी	खजरी	385.400	
25						पटेवा	पटेवा	1234.510	
26						ईरइखुर्द	ईरइखुर्द	477.337	
27						गोपालपुर	गोपालपुर	356.431	
28			8	8	गोपालपुर	भालूकोन्हा		340.858	
29						अउरदा	अउरदा	296.500	
30						दर्रा		314.223	
31						रीवागहन		208.778	
रा.नि.म. घुमका				8	8	31	17	12957.263	

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः क्रमांकित प.ह.नं.			प.ह.नं. में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत (राजस्व ग्राम/वन ग्राम/डुबान ग्राम/विरान ग्राम)		
			वर्तमान प.ह. नं.	प्रस्तावित हल्का नंबर	मुख्यालय का नाम						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
32	घुमका	उपरवाह	9	9	बिजेतला	ईरईकला	ईरईकला	637.989			
33						बिजेतला	बिजेतला	938.553			
34						मोंहदी	मोंहदी	657.708			
35			10	10	चारभांठा	चारभांठा	चारभांठा	624.942			
36						मुरमुंदा	मुरमुंदा	402.621			
37						जराही		166.782			
38						बिरेझर	बिरेझर	296.219			
39			11	11	सलोनी	सलोनी	सलोनी	472.393			
40						भदेरानवांगांव	भदेरानवांगांव	299.633			
41						टेमरी		343.738			
42						गिधवा	गिधवा	640.830			
43			12	12	हरडुवा	हरडुवा	हरडुवा	636.954			
44						मुडपार	मुडपार	309.768			
45						देवादा		250.779			
46			13	13	उपरवाह	उपरवाह	उपरवाह	1111.289			
47						डुडिया		193.398			
48						कलडबरी	कलडबरी	285.307			
49						बरगाही		229.759			
50			14	14	बरबसपुर	बरबसपुर	बरबसपुर	713.334			
51						चंवरढाल	चंवरढाल	510.255			
52						महरूमखुर्द	महरूमखुर्द	495.834			
53						भरदाखुर्द		351.995			
54			15	15	डूमरडीहखुर्द	डूमरडीहखुर्द	डूमरडीहखुर्द	230.314			
55						देवडोंगर	जराही	291.240			
56						जराही		286.756			
57						शिकारीटोला		214.438			
58			16	16	परसबोड	परसबोड	परसबोड	422.390			
59						पचपेडी	भेंडरवानी	238.156			
60						भेंडरवानी		259.415			
61						बिहावबोड़		258.657			
रा.नि.म. उपरवाह			8	8	8	30	20	12771.446			
महायोग :-				16		61	37	25728.709			

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th July 2023

No. 1012/Condl./2023/II-2-99/2001 (Pt.-III).—On the basis of application of Shri Nilesh Jagdalla, Member of Lower Judicial Service, presently posted as II Civil Judge Class-II, Raigarh requesting for change of his home district, permission is hereby accorded to change his home district as “Mahasamund” instead of “Bilaspur”. He is directed that he shall not be entitled to change his home district again in future.

Bilaspur, the 13th July 2023

No. 8413/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present Place of posting (3)	Present Civil District (4)
1.	Smt. Harshi Aggarwal, J.M.S.C., Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon
2.	Ku. Aishwarya Diwan, J.M.S.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
3.	Shri Paarth Dubey, J.M.S.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
4.	Shri Ashish Kumar Chandahe, J.M.S.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
5.	Ku. Divya Goyal, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
6.	Shri Shailesh Kumar Vashishtha, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
7.	Ku. Afreen Bano, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
8.	Ku. Meenu Nand, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
9.	Ku. Swarna Dehare, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
10.	Ku. Kanya Iyer, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
11.	Ku. Sarika Nande, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
12.	Shri Shashwat Dubey, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
13.	Ku. Unnati Mahiswar, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
14.	Shri Siddharth Anand Soni, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
15.	Ku. Tannya Brahme, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
16.	Ku. Niti, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
17.	Ku. Sakshi Dhruw, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
18.	Ku. Dharini Rana, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
19.	Shri Dhruvraj Gwal, J.M.S.C., Raipur	Sarangarh	Raigarh
20.	Shri Shivendra Kumar Tekam, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
21.	Ku. Konika Yadav, J.M.S.C., Balod	Balod	Balod
22.	Ku. Pragya Agrawal, J.M.S.C., Dhamtari	Dhamtari	Dhamtari
23.	Ku. Kumudni Garg, J.M.S.C., Dhamtari	Kurud	Dhamtari
24.	Shri Ajay Singh Meena, J.M.S.C., Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur
25.	Shri Manish Kumar, J.M.S.C., Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur
26.	Ku. Danteshwari Netam, J.M.S.C., Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur

Bilaspur, the 13th July 2023

No. 8415/Checker/III-6-2/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present Place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Ku. Pragya Agrawal, J.M.F.C., Dhamtari	Dhamtari	Dhamtari
2.	Ku. Kumudni Garg, J.M.F.C., Dhamtari	Kurud	Dhamtari

बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्रमांक 8417/चेकर/तीन-10-11/2000.—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10039/चेकर/तीन-10-11/2000 दिनांक 12 अगस्त, 2022 जहां तक उसका संबंध द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा की शृंखला न्यायालय बचेली से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No.8417/Checker/III-10-11/2000.—The Notification no. 10039/Checker/III-10-11/2000 dated 12 August 2022 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Camp Court of the II Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Dantewara at Becheli is hereby cancelled.

Bilaspur, the 20th July 2023

No. 1040/Condl./2023/II-3-14/2000 (Part-IV).—On the application of Ku. Shweta Goswami, the then I Civil Judge Class-II, Ambikapur, presently posted as I Civil Judge Class-II, Bilaspur, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Shweta Goswami” in place of “Ku. Shweta Goswami” and to incorporate the name of her husband Shri Bhaskar Goswami in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon’ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.